

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 2544
गुरुवार, 24 मार्च, 2022/3 चैत्र, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

पश्चिमी बंगाल में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना

2544. श्रीमती मौसम नूर:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा पश्चिमी बंगाल राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई धनराशि आबंटित की गई है और यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ आबंटित धनराशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ख) क्या पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले में पर्यटन की अपार संभावनाओं के मद्देनजर इस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): जी हाँ महोदय। पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन एवं तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान सम्बन्धी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद) नामक अपनी योजनाओं के अन्तर्गत देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केन्द्रीय एजेंसियों आदि को वित्तीय सहायता देता है। इन योजनाओं के अन्तर्गत विकास हेतु स्वीकृत परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से की जाती है और निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति तथा योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन की शर्त पर उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाती है। पर्यटक स्थलों के रूप में संवर्धन एवं विकास हेतु स्थान का चयन मुख्य रूप से राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन की जिम्मेदारी है। स्वदेश दर्शन तथा प्रशाद के अन्तर्गत निधियों की जिले-वार स्वीकृति नहीं दी जाती हैं। स्वदेश दर्शन, प्रशाद योजनाओं के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

पश्चिमी बंगाल में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना के सम्बन्ध में दिनांक 24.03.2022 के राज्य सभा के लिखित प्रश्न सं. 2539 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में विवरण

स्वदेश दर्शन योजना

(करोड़ रु. में)

| राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | परिपथ | स्वीकृति वर्ष | परियोजना का नाम | स्वीकृत राशि |
|---------------------------|---------------|------------------|---|-----------------|
| पश्चिम बंगाल | तटीय परिपथ | 2015-16 | तटीय परिपथ का विकास : उदयपुर- दीघा-शंकरपुर- ताजपुर-मंदारमिण-फ्रेजरगंज-बक्खलाई- हेनरीआईलैंड | 67.99 |

तीर्थस्थान जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान सम्बन्धी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद) योजना

(करोड़ रु. में)

| राज्य/संघ राज्यक्षेत्र | स्वीकृति वर्ष | परियोजना का नाम | स्वीकृत राशि |
|---------------------------|---------------|-----------------|--------------|
| पश्चिम बंगाल | 2016-17 | बेलूर का विकास | 30.03 |
